



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 749 राँची, मंगलवार

31 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

24 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-19/2018-1052 (HRMS)-- श्री नारायण राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोमचांच, कोडरमा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

| Sl. No. | Employee Name (G.P.F. No.) | Decision of the Competent Authority | Effective Date |
|---------|---------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NARAYAN RAM (JHK/JAS/224) | श्री नारायण राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोमचांच, कोडरमा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. | 24/07/2017 |

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-154/वि०, दिनांक 7 फरवरी, 2018, जो ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-963, दिनांक 15 मार्च, 2018 के माध्यम से प्राप्त है, के द्वारा श्री नारायण राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोमचांच, कोडरमा के विरुद्ध तेलारियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास

योजना में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरतने सम्बन्धी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा में इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित होते हैं।

3. अतः आरोपों की गंभीरता के आलोक में श्री नारायण राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोमचांच, कोडरमा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उपयुक्त, बोकारो का कार्यालय रहेगा, जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०- 3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
